



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 2-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

## PART-I

### Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

**क्र.सं.11/52-2000-पुरा/12677-12728.**— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि संरक्षित संस्मारकों के समीप और पार्श्वस्थ क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 15 मीटर तक और उनसे परे 30 मीटर तक के क्षेत्र को खनन संक्रियाओं या सन्निर्माण या दोनों के प्रयोजनों के लिए क्रमशः प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना है;

इसलिए, अब, पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1965, के नियम 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, अधिसूचना संख्या 11/52-2000-पुरा/6169-97, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इस अधिसूचना से संलग्न सूची में यथावर्णित क्षेत्रों को खनन संक्रियाओं एवं सन्निर्माण दोनों के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के रूप में घोषित करते हैं।

धीरा खंडेलवाल,  
अवर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

## राज्य सुरक्षित स्मारकों/स्थलों/अवशेषों की सूची

1. भीमा देवी मन्दिर एवं तकिया बनवा फकीर, पिन्जौर ।
2. यूरोपियन सिमेट्री, अम्बाला ।
3. शीशमहल, फरुखनगर, गुडगांव ।
4. देहरा मन्दिर, फिरोजपुर झिरका ।
5. प्राचीन बादशाही पुल, ऊंचा सिवाना, करनाल ।
6. प्राचीन शिव मन्दिर, पिहोवा, कुरुक्षेत्र ।
7. विश्वामित्र का टीला पिहोवा, कुरुक्षेत्र ।
8. शेख तैयब का मकबरा, कैथल ।
9. गुम्बद व मस्जिद, पीर तुर्कमान, नारनौल ।
10. त्रिपालिया गेटवे, नारनौल ।
11. शाह निजाम का मकबरा, नारनौल ।
12. चोर गुम्बद, नारनौल ।
13. शोभा सरोवर, नारनौल ।
14. छत्ताराय बाल मुकुन्द दास, नारनौल ।
15. मिर्जा अली जॉन तख्त एवं बावड़ी, नारनौल ।
16. प्राचीन स्थल, भिरझाना, जिला फतेहाबाद ।
17. प्राचीन स्थल, कुणाल, जिला फतेहाबाद ।
18. दरगाह चार कुतुब, हांसी, हिसार ।
19. जहाज कोठी, हिसार ।
20. बौद्ध स्तूप चनेटी, यमुना नगर ।
21. प्राचीन स्थल सुघ, अमादलपुर, यमुनानगर ।
22. नाहन कोठी, पंचकूला ।
23. प्राचीन शिव मन्दिर, गांव सालवन, करनाल ।
24. ब्रिक बावड़ी, कैथल ।
25. बौद्ध स्तूप, कुरुक्षेत्र ।
26. प्राचीन किला सफीदों, जींद ।
27. प्राचीन टिला, किरसोला जींद ।
28. प्राचीन टिला बालू, कैथल ।
29. विक्टोरिया मैमोरियल हाल, करनाल ।
30. प्राचीन गुम्बद, पलवल ।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT**

**Notification**

The 20th December, 2017

**No.11/52-2000-Pura/12677-12728.**— Whereas, the Governor of Haryana is of the opinion that the area up to 15 meters from the protected limits and further beyond it up to 30 meters nearer adjoining protected monuments has to be declared to be prohibited and regulated area respectively for the purposes of both mining operations and construction;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 30 of the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1965, and with reference to Haryana Government, Archaeology and Museums Department, notification number 11/52-2000-pura/6169-97, dated the 17th October, 2016, the Governor of Haryana hereby declared the areas as mentioned in the list enclosed with this notification as prohibited and regulated for the purpose of both mining operation and construction.

DHEERA KHANDELWAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Archaeology and Museums Department.

**LIST OF STATE PROTECTED MONUMENTS/SITES, REMAINS**

1. Bhima Devi Temple and Takiya Bawa Fakir, Pinjore, Panchkula.
2. European Cemetery, Ambala.
3. Shish Mahal , Farukh Nagar, Gurgaon.
4. Dehra Mandir, Ferozpur Jhirkha, Mewat.
5. Old Badashahi Bridge, Village Uchasiwan, Karnal.
6. Prachin Shiv Temple, Pehowa Kurukshetra.
7. Vishwa Mitra Ka Tila, Pehowa, Kurukshetra.
8. Tomb of Shiekh Tayyab, Kaithal.
9. Tomb & Mosque of Pir Turkman, Narnaul.
10. Tripolia Gateway, Narnaul.
11. Tomb of Shah Nizam, Narnaul.
12. Chor Gumbad, Narnaul.
13. Shobha Sarovar, Narnaul.
14. Chhatta Rai Balmukund Dass, Narnaul.
15. Mirza Alijan's Takhat and Baoli, Narnaul.
16. Old site of Bhirdana, Distt. Fatehabad.
17. Old site Kunal, Distt. Fatehabad.
18. Tomb of Char Qutab, Hansi, Hisar.
19. Jahaj Kothi, Hisar.
20. Buddhist Stupa, Chaneti, Yamunanagar.
21. Ancient Site of Sugh, Village Amadalpur, Yamunanagar.
22. Nahan Kothi, Panchkula.
23. Prachin Shiv Mandir, Village Salwan, Karnal.
24. Brick Baoli, Kaithal.
25. Bodh Stupa, Kurukshetra.
26. Ancient Fort, Safidon, Jind.
27. Ancient Mound, Kirsola, Jind.
28. Ancient Mound, Balu, Kaithal.
29. Victoria Memorial Hall, Karnal.
30. Ancient Gumbad, Palwal.